

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2010—आश्विन 23, शक 1932

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

क्र. एफ 2-47-2010-छः.—राज्य शासन, खरगोन जिले के मण्डलेश्वर नगर सीमा को पवित्र नगर घोषित करते हुए निम्नलिखित मंदिरों, जिनकी चतुःसीमा निम्नानुसार है, के आस-पास के 100 मीटर क्षेत्र की परिधि को एतद्वारा पवित्र क्षेत्र घोषित करता है :—

1. छप्पनदेव मंदिर ( मण्डलेश्वर शिवालय )  
पूर्व—पुलिया  
पश्चिम—आबादी  
उत्तर—कसरावद-मण्डलेश्वर मार्ग  
दक्षिण—नाला.
2. गुप्तेश्वर मंदिर  
पूर्व—पुलिया  
पश्चिम—आबादी  
उत्तर—छप्पनदेव मंदिर  
दक्षिण—नाला.
3. श्रीराम मंदिर  
पूर्व—शंकर मंदिर  
पश्चिम—टोकेश्वर मंदिर  
उत्तर—खेड़ापति हनुमान मंदिर  
दक्षिण—नर्मदा नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. तिवारी, उपसचिव.